



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 भाद्र 1946 (श10)

(सं0 पटना 854) पटना, बुधवार, 28 अगस्त 2024

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

20 जून 2024

सं0 03/स्था0रा0अ0(67वीं-नियुक्ति)-02/2024-326(3)/रा0—बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर आयोग के पत्रांक-7ए/67वीं संयुक्त (मुख्य) प्रति0परीक्षा-01-04/2022 (80) लो0से0आ0/गो0, दिनांक-09.01.2024 के माध्यम से बिहार राजस्व सेवा के अन्तर्गत नियुक्ति हेतु अनुशंसित निम्नलिखित अभ्यर्थी को अधोलिखित शर्तों के अधीन पे मैट्रिक्स लेवल-7 (₹44,900-₹1,42,400) में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ परीक्ष्यमान राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड के पद पर औपबंधिक रूप से नियुक्त करते हुए उनके नाम के सामने स्तम्भ-9 में अंकित पद एवं स्थान पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है :-

क्र0 सं0	अनुक्रमांक	नाम, पिता/पति का नाम एवं स्थायी पता	गृह जिला	जन्म तिथि	मेधा क्रमांक	मूल आरक्षण कोटि	आयोग द्वारा आवंटित आरक्षण रोस्टर	नव पदस्थापन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	279140	श्री सुमन सौरव, पिता- श्री अवधेश कुमार, ग्राम-राघोपुर बखरी, पो0-बखरी, भाया-परसौनी, जिला-सीतामढ़ी, बिहार, पिन-843325	सीतामढ़ी	25.07.1993	875	01-सामान्य	01-सामान्य (FFD)	राजस्व अधिकारी, अंचल कार्यालय, सकरा, मुजफ्फरपुर

2. (i). संबंधित अभ्यर्थी को निदेश दिया जाता है कि तीन दिनों के अन्दर अपना फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र विभाग से प्राप्त करते हुए एक सप्ताह के अन्दर नव पदस्थापित कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करेंगे। ससमय योगदान नहीं करने अथवा योगदान अवधि के विस्तार हेतु साक्ष्य सहित

- आवेदन समर्पित नहीं करने की स्थिति में संबंधित का अभ्यर्थित्व निरस्त करने की कार्रवाई प्रारम्भ की जा सकेगी।
- (ii). नवनियुक्त अधिकारी द्वारा जिला समाहर्ता/नव पदस्थापन कार्यालय में योगदान के समय फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र एवं असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के स्तर से निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं इसकी एक-एक छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
 - (iii). जिला समाहर्ता नवनियुक्त अधिकारी का फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र एवं चिकित्सा प्रमाण-पत्र की जांचोपरान्त स्वयं संतुष्ट होकर उनका योगदान स्वीकृत करेंगे।
 - (iv). नवनियुक्त अधिकारी, यदि पूर्व से किसी सेवा में कार्यरत हैं तथा प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के समय नियोक्ता/सक्षम प्राधिकार के स्तर से निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं कर सके हैं, तो योगदान के समय उक्त प्रमाण पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करेंगे।
 - (v). नवनियुक्त अधिकारी यदि पूर्व में किसी नियोक्ता के अन्तर्गत सेवारत हैं, तो योगदान के समय विरमन पत्र (Relieving Letter) प्रस्तुत करेंगे। अन्य सेवा से त्याग पत्र देने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा त्याग पत्र स्वीकृति से संबंधित पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।
 - (vi). सामान्य प्रशासन विभाग (तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प सं०-1919 दिनांक-18.01.1976 के अनुपालन में दहेज न लेने/न देने संबंधी घोषणा पत्र योगदान करने के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।
 - (vii). नव नियुक्त राजस्व अधिकारी के लिए प्रवेशकालीन प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है। प्रशिक्षण से संबंधित कार्यक्रम एवं स्थान की सूचना विभागीय वेब-साइट-www.lrc.bih.nic.in के माध्यम से दी जायेगी।
3. (i) नवनियुक्त अधिकारी का पूर्व वृत्त सत्यापन (Bio-Data Verification) प्रतिवेदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में यह नियुक्ति औपबंधिक रूप से की गई है।
 - (ii) नवनियुक्त अधिकारी द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों के संबंध में कोई भिन्न सूचना पाये जाने एवं पूर्व वृत्त सत्यापन प्रतिवेदन में प्रतिकूल तथ्य प्रतिवेदित होने की स्थिति में संबंधित पदाधिकारी की सेवा नियमानुसार तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी एवं उनके विरुद्ध आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी।
 - (iii) नवनियुक्त अधिकारी की परीक्ष्यमान अवधि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार द्वारा विनिश्चित मापदंड के अनुसार होगी तथा उनकी आपसी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित संयुक्त मेधा क्रमांक के अनुसार होगी।
4. वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं०-1964, दिनांक-21.08.2005 एवं पत्रांक-768 पे०को०, दिनांक 03.07.2007 के आलोक में संबंधित नव नियुक्त अधिकारी की सेवा नई अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित होगी।
 5. नवनियुक्त अधिकारी को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने तथा योगदान हेतु नव पदस्थापित स्थान पर आने-जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संतोष कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 854-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>